

## प्रेस नोट थाना बेलीपार दिनांक 01.07.2021

### **नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी वाँसगाव के निकट पर्वक्षेत्र में तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय बेलीपार के नेतृत्व में उ0नि0 श्री बृजेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 श्री सुनील कुमार कश्यप, का0 सतीश कुमार व का0 सुनील कुमार यादव के साथ कसिहार मलांव रोड पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि कुछ समय के बाद गोरखपुर की तरफ से आती हुई मोटरसाईकिल हीरो होण्डा हंक को रुकवाने का प्रयास किया गया कि मोटरसाईकिल सवार हम पुलिस वालो को देखकर मलांव रोड़ के तरफ भागने लगा कि संदिग्ध व्यक्ति होने पर हम पुलिस वालो द्वारा एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए एंव हम पुलिस वालो को देखकर भागने का कारण पूछते हुए बकायदा जामा तलाशी लीवायी गयी तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम विशाल गुप्ता पुत्र दुबरी गुप्ता निवासी ग्राम हाटा बुजुर्ग थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर तथा जामा तलाशी से उसके पास से एक जरब नाजायज तमंचा .315 बोर व एक जरब जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना बेलीपार पर मु0अ0सं0 121/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम विशाल गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

विशाल गुप्ता पुत्र दुबरी गुप्ता निवासी ग्राम हाटा बुजुर्ग थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर।

#### **गिरफ्तार करने का दिनांक व समय व स्थान**

दिनांक 30.06.2021 , समय- 20.40 बजे, स्थान – कसिहार मलांव रोड़ के पास।

#### **बरामदगी:-**

एक अदद नजायज तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

#### **आपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0सं0 121/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री नीरज कुमार राय
2. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार कश्यप
4. का0 सतीश कुमार
5. का0 अनील कुमार यादव